



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1219]  
No. 1219]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 8, 2007/आश्विन 16, 1929  
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 8, 2007/ASVINA 16, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2007

सं. 35 (आरई-2007)/2004—2009

का.आ. 1723(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2004—2009, के पैरा 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा अधिसूचना सं. 56(आर ई-2006)/2004—2009 दिनांक 29 मार्च, 2007 में निम्नानुसार संशोधन करती है :—

1. एग्जिम कोड 1001 10 90 (दुम गेहूँ : अन्य) और 1001 90 20 (अन्य गेहूँ) के अन्तर्गत आने वाली मर्दों के आयात के लिए मौजूदा नीति आगामी आदेशों तक स्थगित रहेगी। इस अवधि के दौरान इन मर्दों का आयात मुक्त रूप से अनुमत होगा।
2. इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/विविध 66/एम 06/पीसी-1ए]

आर. एस. गुजराल, विदेश व्यापार महानिदेशक  
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY  
(Department of Commerce)  
NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2007

No. 35 (RE-2007)/2004—2009

S.O. 1723(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with paragraph 2.1 of the Foreign Trade Policy, 2004—2009, the Central Government hereby amends the Notification No. 56 (RE-2006)/2004—2009 dated 29th March, 2007, as under :

1. The existing policy for import of items falling at Exim. Codes 1001 10 90 (Durum Wheat: Other) and 1001 90 20 (Other Wheat) shall remain in abeyance till further orders. During this period, import of these items will be allowed freely.
2. This issues in Public Interest.

[F. No. 01/89/180/Misc. 66/AM06/PC-1A]  
R. S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade  
& ex-officio Addl. Secy.